

संपादकीय

आपदा से दो-दो हाथ

ओडिशा में जिस मुस्लेदी व संवदेनशील ढंग से फानी चक्रवात की भयावहता का सामना किया गया, उसकी पूरी दुनिया में मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। हर जिंदगी को बचाने के लिये जिस तरह योजनाबद्ध ढंग से काम हुआ और ग्यारह लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया, वह काबिलेतारीफ है। दरअसल, अक्सर आने वाले चक्रवातों से ओडिशा ने लड़ना सीख लिया है। वर्ष 1999 में आये महाचक्रवात ने जो तबाही मचायी थी, उसने राज्य को योजनाबद्ध ढंग से आपदा से जूझने का अनुभव दिया। उपग्रहों की मदद से तूफान आने की सूचना समय पर मिलनी शुरू हुई तो संचार साधनों के चलते राहत व बचाव कार्यक्रम समय रहते तैयार किये जाने लगे। एनडीआरएफ ने पूरे देश में जहां लाखों लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं इसी तर्ज पर राज्यों में बने संगठनों ने भी आपदा प्रबंधन को नई दिशा दी। यदि सताधीन हर जान को बचाने के लिये संवेदनशील नजर आए तो कोई वजह नहीं है कि आपदा प्रबंधन को प्रभावी न बनाया जा सके। ओडिशा ने चक्रवात के संबंध में जो जानकारी आम लोगों तक पहुंचायी, उससे न केवल राज्य बल्कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि को भी सतर्क होकर राहत-बचाव कार्य नियोजित करने का अवसर मिला। हवाई व रेल यातायात को नियंत्रित किया गया और तरह-तरह की एडवाइजरी जारी की गई। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रयासों की भरपूर सराहना की। लेकिन वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री के साथ आपदा प्रबंधन पर रिव्यू बैठक करने से मना करना अस्वरा है। ऐसे दौर में जब ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम के मिजाज में तल्खी आई है, हमें ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिये तैयार रहने की जरूरत है। एक ओर जहां तकनीक व सूचना संसाधनों के जरिये सजगता व सतर्कता को बढ़ाया जा सकता है, वहीं राहत व बचाव के कार्य को आधुनिक तौर तरीकों से चलाया जा सकता है।

हाल ही में भूकंप वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में चिंता जताई गई कि हिमालय क्षेत्र में अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। निःसंदेह भूकंप को लेकर सटीक भविष्यवाणी कर पाना तो संभव नहीं है मगर हम सतर्कता व सजगता से ऐसे उपायों को अमल में ला सकते हैं, जिनसे जन-धन की हानि को कम से कम किया जा सके। हमें जापान से सबक लेना होगा जहां आये दिन भूकंप आते हैं। वे थोड़े समय के लिये बचाव के उपाय अपनाते हैं और फिर अपने कामधंधों में लग जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस स्थिति में आने के लिये जापान ने विज्ञान व तकनीक के जरिये महत्वपूर्ण काम किया है। घरों व सार्वजनिक इमारतों को भूकंपरोधी बनाया गया है। भारत में एक छत का जुगाड़ ही तो प्राथमिकता होती है, मगर उसे भूकंपरोधी बनाने पर ध्यान नहीं दिया जाता। देश की प्रयोगशालाओं में भूकंप पर काम तो बहुत हुआ है मगर विडंबना यही है कि उसे आम आदमी तक पहुंचाने का काम उस गति से नहीं हुआ। जिन सरकारी विभागों का दायित्व मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों में भूकंपरोधी तकनीक के अनुपालन का है, वे भी पूरी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। गुजरात में आये भूकंप में सबसे ज्यादा नुकसान बहुमंजिली इमारतों के गिरने से हुआ था। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम भूकंप आदि आपदाओं के बाद राहत व बचाव का होता है। घर इतनी तंग गलियों में बनाये जाते हैं कि फायर ब्रिगेड को वहां पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा की प्रकृति के अनुसार राहत व बचाव कार्य में दक्षता के लिये विभिन्न विभागों में बेहतर तालमेल जरूरी है। दरअसल, लोगों को भूकंप नहीं, गरीबी मारती है। लोगों के पास जितने भी संसाधन हैं, उसी के अनुरूप भूकंप से बचाव के लिये ज्ञान उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

मैंगो फिरनी बनाने की विधि...

आज हम मिठाई को लेकर बात करें तो आपको ये बता दें कि ज्यादातर लोगों को मीठा खाना काफी पसंद होता है। थोड़े लोगों को भोजन के पश्चात मीठा खाने का मन करता है। गर्मी के दिनों में आम बहुत आसानी से मिल जाते हैं। दरअसल, आज हम आपको आम से बनी मैंगो फिरनी की रेसिपी के संबंध में जानकारी देंगे। यह खाने में काफी स्वादिष्ट होती है एवं इसे आप काफी सरलता से घर पर तैयार कर सकते हैं।

सामग्री

बासमती चावल- 2 इलायची पाउडर डालकर इसे ठंडा करने हेतु रखिए। अब इसमें आम का पेस्ट व ड्रायफ्रूट डालकर काफी अच्छे से गार्निश कीजिए। सब करने के पश्चात अब आपकी मैंगो फिरनी बनकर तैयार है।



विधि

सर्वप्रथम एक कटोरी में बासमती चावल लेकर भीगा दें। आधे घंटे के पश्चात इसे पानी से निकालकर पीस लें। एक पैन में 1 लीटर दूध डालकर उबालिए। जब ये अच्छे से उबल जाए तो इसमें पीसे हुए चावल डालकर मिलाइए। इसे तब तक पकाइए जब तक दूध गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें चीनी एवं केसर डालकर मिलाइए।

गूगल ने प्राइवैसी पर यूजर्स का नियंत्रण बढ़ाया

सैन फ्रांसिस्को (आरएनएस)। दुनियाभर की सरकारों के प्रौद्योगिकी कंपनियों पर निजता से संबंधित कमियों को दूर करने का दबाव डालने के बीच गूगल ने उत्पादों और प्लेटफॉर्म पर अपने यूजर्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और निजता टूल्स की घोषणा की है। कंपनी ने पिछले महीने यूजर्स को उनकी लोकेशन हिस्ट्री और वेब तथा एप एक्टिविटी की जानकारी को सुरक्षित रखने की समय सीमा तीन या 18 महीने चुनने की नई सुविधा दी थी।

गूगल के प्राइवैसी और डाटा प्रोटेक्शन कार्यालय के प्रोडक्ट मैनेजमेंट निदेशक एरिक मीरगलिया ने कहा, इसे चुनने पर आपके अकाउंट में इस समय सीमा से पुरानी कोई भी जानकारी अपने आप और लगातार डिलीट होती जाएगी। वेब और एप एक्टिविटी के लिए यह नया नियंत्रण सात मई से और लोकेशन हिस्ट्री में अगले महीने से आएगा।



गूगल यूजर्स जीमेल, ड्राइव, कॉन्टैक्ट्स और पे जैसे प्रोडक्ट्स में अपने अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर दायीं तरफ सबसे ऊपर देख सकेंगे। मिरगलिया ने कहा, अपने प्राइवैसी कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए, आपको अपनी पिक्चर पर टैप करना होगा और अपने गूगल अकाउंट के लिंक को फॉलो करना होगा। कंपनी ने कहा, आप गूगल मैप्स में अपने लोकेशन एक्टिविटी से संबंधित जानकारी की समीक्षा कर उसे डिलीट भी कर सकेंगे। गूगल इस महीने सर्च, मैप्स, यूट्यूब, क्रोम, असिस्टेंट और न्यूज में भी ये सुविधा ला रहा है।

गूगल यूजर्स जीमेल, ड्राइव, कॉन्टैक्ट्स और पे जैसे प्रोडक्ट्स में अपने अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर दायीं तरफ सबसे ऊपर देख सकेंगे। मिरगलिया ने कहा, अपने प्राइवैसी कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए, आपको अपनी पिक्चर पर टैप करना होगा और अपने गूगल अकाउंट के लिंक को फॉलो करना होगा। कंपनी ने कहा, आप गूगल मैप्स में अपने लोकेशन एक्टिविटी से संबंधित जानकारी की समीक्षा कर उसे डिलीट भी कर सकेंगे। गूगल इस महीने सर्च, मैप्स, यूट्यूब, क्रोम, असिस्टेंट और न्यूज में भी ये सुविधा ला रहा है।

मुंबई इंडियंस ने हमें उन्नीस साबित कर दिया : फ्लेमिंग

चेन्नै (आरएनएस)। चेन्नै सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने स्वीकार किया कि आईपीएल के पहले चॉलिफायर में उनकी टीम को मुंबई इंडियंस ने हर विभाग में पछाड़ दिया। फ्लेमिंग ने कहा कि मुंबई ने चेन्नै को रास आने वाली चेपक की पिच पर भी बेहतर क्रिकेट खेला। मुंबई ने जीत के लिए 132 रन का लक्ष्य 18.3 ओवर में हासिल करके 6 विकेट से जीत दर्ज की। उन्होंने कहा, मुंबई ने आत्मविश्वास से खेलते हुए हमें दबाव में ला दिया। उन्होंने हमारे हालात में भी अच्छा क्रिकेट खेला और हमें उन्नीस साबित कर दिया।



पेट्रोल, डीजल के दाम स्थिर, कच्चे तेल में लौटी तेजी

नई दिल्ली (आरएनएस)। पेट्रोल और डीजल के दाम में बुधवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में फिर तेजी देखी जा रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम में आगे राहत मिलने की संभावना कम हो गई है। अमेरिका-चीन व्यापारिक वार्ता शुरू होने की दिशा में प्रगति की रिपोर्ट के बाद बाजार में लौटी सकारात्मक रुझान से तेल के दाम में फिर तेजी आई है। हालांकि कमोडिटी विश्लेषक बताते हैं कि तेल के दाम में तेजी ईरान और वेनेजुएला से तेल की सप्लाई प्रभावित होने के कारण लौटी है। पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे, जबकि डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन बुधवार को स्थिरता बनी रही। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पूर्ववत् क्रमशः 73 रुपये, 75.04 रुपये, 78.59 रुपये और 75.79 रुपये प्रति लीटर बने रहे। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी पूर्ववत् क्रमशः 66.66 रुपये, 68.40 रुपये, 69.81 रुपये और 70.43 रुपये प्रति लीटर बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार आईसीईएफ में जुलाई डिलीवरी ब्रेंट क्रूड पिछले सत्र के मुकाबले 0.49 फीसदी की तेजी के साथ 70.22 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ था। वहीं, नायमैक्स पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट के जून अनुबंध में 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 61.85 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

नई दिल्ली (आरएनएस)। पेट्रोल और डीजल के दाम में बुधवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में फिर तेजी देखी जा रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम में आगे राहत मिलने की संभावना कम हो गई है। अमेरिका-चीन व्यापारिक वार्ता शुरू होने की दिशा में प्रगति की रिपोर्ट के बाद बाजार में लौटी सकारात्मक रुझान से तेल के दाम में फिर तेजी आई है। हालांकि कमोडिटी विश्लेषक बताते हैं कि तेल के दाम में तेजी ईरान और वेनेजुएला से तेल की सप्लाई प्रभावित होने के कारण लौटी है। पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे, जबकि डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन बुधवार को स्थिरता बनी रही। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पूर्ववत् क्रमशः 73 रुपये, 75.04 रुपये, 78.59 रुपये और 75.79 रुपये प्रति लीटर बने रहे। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी पूर्ववत् क्रमशः 66.66 रुपये, 68.40 रुपये, 69.81 रुपये और 70.43 रुपये प्रति लीटर बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार आईसीईएफ में जुलाई डिलीवरी ब्रेंट क्रूड पिछले सत्र के मुकाबले 0.49 फीसदी की तेजी के साथ 70.22 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ था। वहीं, नायमैक्स पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट के जून अनुबंध में 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 61.85 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

नई दिल्ली (आरएनएस)। पेट्रोल और डीजल के दाम में बुधवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में फिर तेजी देखी जा रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम में आगे राहत मिलने की संभावना कम हो गई है। अमेरिका-चीन व्यापारिक वार्ता शुरू होने की दिशा में प्रगति की रिपोर्ट के बाद बाजार में लौटी सकारात्मक रुझान से तेल के दाम में फिर तेजी आई है। हालांकि कमोडिटी विश्लेषक बताते हैं कि तेल के दाम में तेजी ईरान और वेनेजुएला से तेल की सप्लाई प्रभावित होने के कारण लौटी है। पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे, जबकि डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन बुधवार को स्थिरता बनी रही। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पूर्ववत् क्रमशः 73 रुपये, 75.04 रुपये, 78.59 रुपये और 75.79 रुपये प्रति लीटर बने रहे। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी पूर्ववत् क्रमशः 66.66 रुपये, 68.40 रुपये, 69.81 रुपये और 70.43 रुपये प्रति लीटर बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार आईसीईएफ में जुलाई डिलीवरी ब्रेंट क्रूड पिछले सत्र के मुकाबले 0.49 फीसदी की तेजी के साथ 70.22 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ था। वहीं, नायमैक्स पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट के जून अनुबंध में 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 61.85 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।



चेन्नै को हराकर मुंबई की पांचवीं बार फाइनल में एंट्री

चेन्नै (आरएनएस)। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल-12 के पहले चॉलिफायर में मंगलवार को 3 बार की चैंपियन टीम चेन्नै सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नै ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 131 रन बनाए। इसके बाद मुंबई टीम ने 18.3 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही मुंबई ने पांचवीं बार आईपीएल के फाइनल में एंट्री की। वहीं, चेन्नै को अब एलिमिनेटर जीतने वाली टीम से चॉलिफायर-2 में भिड़ना होगा। मुंबई के लिए मैन ऑफ द मैच सूर्यकुमार यादव ने सर्वाधिक नाबाद 71 रन का योगदान दिया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूर्यकुमार अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने ईशान किशन (28) के साथ तीसरे विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की। सूर्यकुमार यादव ने 54 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 10 चौके जड़े। उन्होंने 37 गेंदों पर चौके के साथ आईपीएल करियर का 7वां अर्धशतक भी पूरा किया। हार्दिक पंड्या 13 रन बनाकर नाबाद रहे।



54 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 10 चौके जड़े। उन्होंने 37 गेंदों पर चौके के साथ आईपीएल करियर का 7वां अर्धशतक भी पूरा किया। हार्दिक पंड्या 13 रन बनाकर नाबाद रहे।

जल्दी लौटे मुंबई के ओपनर

मुंबई टीम के दोनों ओपनर 21 रन के टीम स्कोर तक पविलियन लौट गए। कप्तान रोहित शर्मा (4) को पारी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर दीपक चाहर ने आउट कर दिया।

सनराइजर्स के खिलाफ जीतकर खुद को साबित करना चाहेगी दिल्ली

विशाखापत्तनम (आरएनएस)। इस साल आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर जीतकर एक बार फिर खुद को साबित करना चाहेगी। इस सत्र की शुरुआत से पहले आमूलचूल बदलाव करने वाली दिल्ली कैपिटल्स इस सत्र की सबसे मजबूत टीमों में से रही। अब तक निचले हाफ में रहने वाली दिल्ली अंकतालिका में शीर्ष पर

पहुंची, जिसे रिकी पॉन्टिंग जैसे कोच और सौरभ गांगुली जैसे सलाहकार से विजयी तेवर मिले हैं। 14 मैचों में 9 जीत और 5 हार के बाद 18 अंक हासिल करने वाली दिल्ली टीम की बदकिस्मती रही कि उसे करो या मरो का एलिमिनेटर खेलना पड़ रहा है। हैदराबाद से तीन मैच ज्यादा जीतने के बावजूद वह उसके खिलाफ यह मैच खेल रही है, जबकि आखिरी लीग मैच से पहले उसका शीर्ष दो में रहना तय लग रहा था।



गूगल ने लांच किए दो स्मार्टफोन्स, प्री बुकिंग प्रारंभ

नई दिल्ली (आरएनएस)। गूगल पीक्सल 3ए और पीक्सल 3ए एक्सएल स्मार्टफोन से पर्दा उठा लिया गया है। इन दोनों हैंडसेट को गूगल के आईओ 2019 कीनोट एड्रेस में लांच किया गया। पीक्सल 3ए और पीक्सल 3ए एक्सएल कंपनी की पीक्सल सीरीज के किफायती हैंडसेट हैं। गूगल इन दोनों हैंडसेट के जरिए प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में और बेहतर दावेदारी पेश करना चाहती है। देखा जाए तो Apple और Samsung जैसे ब्रांड को मिडरेंज सेगमेंट में बेहतर चुनौती देने के लिए ये हैंडसेट पेश किए गए हैं। Pixel 3a और Pixel 3a XL को भारत में 15 मई को रिलीज किया जाएगा। लेकिन Flipkart पर इसकी प्री-बुकिंग 8 मई को दोपहर साढ़े 12 बजे शुरू होगी।

साथ 3 महीने का YouTube Premium मुफ्त है। दोनों ही स्मार्टफोन 4 जीबी रैम/ 64 जीबी स्टोरेज के साथ आएंगे। गूगल ने अपने इन दोनों फोन में बजट सेगमेंट वाले फोन के हार्डवेयर का इस्तेमाल किया है। इन फोन में पीक्सल 3 और पीक्सल 3एक्सएल वाला पीक्सल विजुअल कोर फीचर नहीं दिया गया है। लेकिन ये टाइम एम सिक्वोरिटी चिप से लैस हैं। वैसे तो ये सिंगल सिम डिव्हाइस हैं। लेकिन भारत में इनका डुअल सिम वेरिएंट आएगा। डिव्हाइस एयरटेल व

साथ 3 महीने का YouTube Premium मुफ्त है। दोनों ही स्मार्टफोन 4 जीबी रैम/ 64 जीबी स्टोरेज के साथ आएंगे। गूगल ने अपने इन दोनों फोन में बजट सेगमेंट वाले फोन के हार्डवेयर का इस्तेमाल किया है। इन फोन में पीक्सल 3 और पीक्सल 3एक्सएल वाला पीक्सल विजुअल कोर फीचर नहीं दिया गया है। लेकिन ये टाइम एम सिक्वोरिटी चिप से लैस हैं। वैसे तो ये सिंगल सिम डिव्हाइस हैं। लेकिन भारत में इनका डुअल सिम वेरिएंट आएगा। डिव्हाइस एयरटेल व



रिलायंस जिओ के ई-सिम को सपोर्ट करते हैं। कंपनी ने जानकारी दी है कि यही सपोर्ट Pixel 3 और Pixel 3a XLको भी मुहैया कराई जाएगी। दोनों ही फोन एंड्रॉयड 9 पाई से लैस हैं। इसके अलावा ओएस और सिक्वोरिटी अपडेट की तीन साल की गारंटी है।

शब्द सामर्थ्य-58

1. संचय, दौड़धूप (उर्दू), सुपुत्र, लायक पुत्र	5. ताकतवर, बलशाली	9. खुशच, सुरभि, सुरंग	10. अकारण, व्यर्थ, बेवजह	12. गर्म तेल आदि में खाद्य वस्तु छोड़कर पकाना	13. यात्रा	15. मृत, जो मर गया हो	16. छोटे कद का, वामन, बौना	18. सांप का रिस, समाधान, खेल जीतने का यंत्र	20. निरुत्तर, बेमिसाल	23. गोल हरे दानों वाला एक प्रसिद्ध पीधा, या इस पीधे की फली	24. माता, जन्मी	25. संतान, आना, बलगम आदि का बाहर कर्मचारी	27. चिड़िया, खग तरफदार।	ऊपर से नीचे	1. पानी में डुबा हुआ, जल प्लावित	2. पाकेटमार, जेब काटने वाला	3. समामान, खेल जीतने का यंत्र	4. औषधालय	6. युक्ति, उपाय	8. गोला, तर, भीगा हुआ	11. झटके से मुंह से आवाज के साथ हवा बाहर आना, बलगम आदि का बाहर आना	14. तुरंत, झटपट	15. स्त्री, नारी, अवला	17. एक और एक चौथाई	19. आदमखोर	21. दुनिया, संसार, जग	22. वर्ष की छः ऋतुओं में एक ऋतु जिसमें मौसम सुहावना रहता है	23. चुड़ि, दिमाग
---	-------------------	-----------------------	--------------------------	---	------------	-----------------------	----------------------------	---	-----------------------	--	-----------------	---	-------------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------	-----------------	-----------------------	--	-----------------	------------------------	--------------------	------------	-----------------------	---	------------------

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 57 का हल

1	2	3	4	5	6
	7		8		
9		10		11	
	12		13		14
	15		16		17
	18		19		
20	21	22	23	24	25
26					27

पी	चि	दं	ब	र	म	स
ट	भ	ला	ई	अ	स	म
ना	म	स	मा	धि	झ	
वा	वू	आ	य	क	र	
र	की	व			प्र	था
ज		रू	प	क	ज	न
हा	पा	ना	म	ची	न	
ज	हां	प	ना	ह	ता	न

सू-दोक्-58

	9			2					1
			5	1					3
7					9			8	5
	8		3			7			5
2		7						1	3
	4							1	8
6			2					9	
				7					3
									6
									7

नियम

- कुल 81 वर्ण हैं, जिसमें 9 वर्णों का एक खंड बनता है।
- हर खाली वर्ण में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं।
- बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक काल्प, कतार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

सू-दोक् क्र.57 का हल

7	8	2	6	3	1	4	5	9
6	4	1	8	5	9	2	7	3
9	3	5	4	7	2		1	8
2	6	3	1	9	7	8	4	
5	7	8	3	6	4	1	9	2
1	9	4	5	2	8	7	3	6
4	5	7	2	8	3	9	6	1
3	1	6	9	4	5	8	2	7
8	2	9	7	1	6	3	4	5

आज का राशिफल

मेष:- भूले-बिसरे ज़ायकों से मुलाकात होगी। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। आत्मसम्मान बना रहेगा। किसी बड़े कार्य को करने की इच्छा जागृत होगी। वृष:- भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। किसी लंबी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। नए उपकरण प्राप्त हो सकते हैं। शंभु- सक्रिय रहेंगे। बनते काम बिगड़ सकते हैं। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। कर्क:- डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नए व्यापारिक अनुबंध हो सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। नौकरी में रुतबा बढ़ेगा। सिंह:- कमजोर व्यक्ति यों की सहायता करने की इच्छा जागृत होगी। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। रुके कार्यों में गति आएगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कन्या:- कानूनी अडिचन दूर होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। तंत्र-मंत्र में रुचि जागृत होगी। आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला:- जल्दबाजी में किए गए कार्य कोई बड़ी हानि का कारण हो सकते हैं। दुश्मनों से दूर रहें। वाणी पर नियंत्रण रखें। बनते कामों में बाधा आएगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। वृश्चिक:- प्रेम-प्रसंग अनुकूल रहेंगे। राजकीय बाधा दूर होकर मनोबल स्थिति बनेगी। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। नौकरी में चैन रहेगा। भाग्य का साथ रहेगा। धनु:- स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। मकर:- पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। कुंभ:- किसी बुरी खबर के मिलने से खिन्नता रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा। अपने बुद्धिबल से बाधा दूर कर पाएंगे। मीन:- मेहनत का फल पूरा-पूरा प्राप्त होगा। सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। व्यापार से मनोबल लाभ होगा।